

To
Department of Corporate Services,
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street,
Mumbai – 400 001

To
Listing Department,
National Stock Exchange of India Limited
C-1, G-Block, Bandra - Kurla Complex
Bandra (E), Mumbai – 400 051

Scrip Code: 543320, Scrip Symbol: ZOMATO
ISIN: INE758T01015

Subject: Newspaper publication – Financial results for the quarter and half year ended
September 30, 2022

Dear Sir/ Ma'am,

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the newspaper extract containing consolidated financial results of the Company for quarter and half year ended September 30, 2022, published in the following editions:

- Financial Express (English newspaper - all editions) on November 12, 2022; and
- Jansatta (Hindi vernacular newspaper in Delhi) on November 12, 2022

You are requested to take the same on record.

Thanking You,
For Zomato Limited
(Formerly known as Zomato Private Limited)



Sandhya Sethia
Company Secretary & Compliance Officer
Date: November 12, 2022
Place: New Delhi
Encl: As above

ZOMATO LIMITED

(Formerly known as Zomato Private Limited)

Registered Address: Ground Floor 12A, 94 Meghdoot, Nehru Place, New Delhi - 110019, Delhi, India.

CIN: L93030DL2010PLC198141, **Telephone Number:** 011 - 40592373

Pipavav Port plans to develop ₹800-cr jetty

NAYAN DAVE
Ahmedabad, November 11

APM TERMINAL PIPAVAV (Gujarat Pipavav Port), the country's first private sector port, is planning to develop a jetty to handle very large container ships (VLCS) at an estimated cost of ₹800 crore.

Jakob Friis Sorensen, MD,

Gujarat Pipavav Port (GPPL) told *FE* that the board of GPPL has approved development of the VLCS jetty to handle more cargo at the Pipavav port. The decision has been taken in view of increasing demand for LPG in the coming days in India, he said. The company wants to add another jetty as early as possible, he added.

The 30-year lease of the Pipavav port is due to expire in September 2028. At present, Pipavav port has five jetties that include two container jetties, two bulk/break cargo jetties and one liquid cargo jetty.

GPPL is also in the process of doubling its warehousing capacity to 200,000 square metre in a span of a year,

Sorensen said, adding, "For the development of additional warehousing capacity near Pipavav port, we have entered into a strategic partnership with Contrans Logistics."

The additional warehousing capacity will be part of the upcoming multi-modal logistic park to be developed in the vicinity of Pipavav port.

FORCE MOTORS LIMITED

CIN L34102PN1958PLC011172

Regd. Office : Mumbai-Pune Road, Akurdi, Pune - 411 035, INDIA.



FORCE

EXTRACT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF-YEAR ENDED 30 SEPT. 2022.

| Sr. No. | Particulars | CONSOLIDATED (₹ IN LAKHS) | | |
|---------|--|---|---|---|
| | | Quarter ended 30 Sept. 2022 (Unaudited) | Half-year ended 30 Sept. 2022 (Unaudited) | Quarter ended 30 Sept. 2021 (Unaudited) |
| 1 | Total Income from Operations | 1,26,407 | 2,23,487 | 93,774 |
| 2 | Net Profit / (Loss) before Tax and Exceptional items | 2,993 | 672 | 109 |
| 3 | Net Profit / (Loss) before Tax and after Exceptional items | 2,993 | 672 | 109 |
| 4 | Net Profit / (Loss) after Tax | 1,928 | 269 | (104) |
| 5 | Total Comprehensive Income for the period [comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] | 2,761 | 1,028 | 238 |
| 6 | Equity Share Capital | 1,318 | 1,318 | 1,318 |
| 7 | Other Equity (as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year) | | 1,73,469 | |
| 8 | Earnings Per Share (Face value of ₹10/- per Share) Basic and Diluted Earnings Per Share (not annualised) (in ₹) | 14.62 | 2.00 | (0.81) |

KEY STANDALONE FINANCIAL INFORMATION :

| Sr. No. | Particulars | STANDALONE (₹ IN LAKHS) | | |
|---------|--|---|---|---|
| | | Quarter ended 30 Sept. 2022 (Unaudited) | Half-year ended 30 Sept. 2022 (Unaudited) | Quarter ended 30 Sept. 2021 (Unaudited) |
| 1 | Total Income from Operations | 1,26,397 | 2,23,468 | 93,764 |
| 2 | Profit / (Loss) before Tax | 3,059 | 1,141 | 583 |
| 3 | Profit / (Loss) after Tax | 1,997 | 743 | 373 |
| 4 | Total Comprehensive Income (after tax) | 2,828 | 1,499 | 715 |

The above information has been extracted from the detailed Quarterly Financial Results, which have been reviewed by the Audit Committee, approved by the Board of Directors, subjected to a limited review by the Statutory Auditors and filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange website at www.bseindia.com and on the Company's website at www.forcemotors.com.

For and on behalf of the Board of Directors

Place : Pune
Date : 11 November 2022

PRASAN FIRODIA
Managing Director
DIN : 00029664



www.forcemotors.com

zomato

Zomato Limited (formerly known as Zomato Private Limited)

CIN : L93030DL2010PLC198141

Registered office- Ground Floor, 12A, 94 Meghdoot, Nehru Place, New Delhi - 110019, Delhi, India

Telephone- 011-40592373, Email- companysecretary@zomato.com, Website- www.zomato.com

Extract of unaudited consolidated financial results for the quarter and half-year ended September 30, 2022

| S.No. | Particulars | Quarter ended | | | Half-year ended | | Year ended |
|-------|--|--------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| | | September 30, 2022 | June 30, 2022 | September 30, 2021 | September 30, 2022 | September 30, 2021 | |
| | | Unaudited | Unaudited | Unaudited | Unaudited | Unaudited | Audited |
| 1 | Total income | 18,308 | 15,820 | 11,610 | 34,128 | 20,776 | 46,873 |
| 2 | Net loss for the period (before tax and exceptional items) | (2,605) | (1,860) | (4,403) | (4,465) | (7,834) | (15,179) |
| 3 | Net loss for the period before tax (after exceptional items) | (2,605) | (1,860) | (4,349) | (4,465) | (7,939) | (12,205) |
| 4 | Net loss for the period after tax (after exceptional items) | (2,508) | (1,860) | (4,349) | (4,368) | (7,956) | (12,225) |
| 5 | Total comprehensive loss for the period/year | (3,016) | (2,625) | (4,397) | (5,641) | (8,029) | (12,203) |
| 6 | Paid-up share capital | 8,337 | 7,652 | 7,565 | 8,337 | 7,565 | 7,643 |
| 7 | Other equity as on March 31, 2022 | | | | | | 1,57,412 |
| 8 | Loss per share (INR) (face value of INR 1 each) | | | | | | |
| | (a) Basic | (0.31) | (0.24) | (0.59) | (0.56) | (1.15) | (1.67) |
| | (b) Diluted | (0.31) | (0.24) | (0.59) | (0.56) | (1.15) | (1.67) |

*The Company does not have any revaluation reserve.

*EPS is not annualised for quarter and half-year ended September 30, 2022, quarter ended June 30, 2022 and quarter and half-year ended September 30, 2021.

Notes:

(a) Exceptional item includes:

| Particulars | Quarter ended | | | Half-year ended | | Year ended |
|---|--------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| | September 30, 2022 | June 30, 2022 | September 30, 2021 | September 30, 2022 | September 30, 2021 | |
| | Unaudited | Unaudited | Unaudited | Unaudited | Unaudited | Audited |
| Gain on sale /disposal of investment including foreign currency translation reserve on foreign subsidiaries sold / disposed off during the period | - | - | 54 | - | - | 3,227 |
| Loss on account of movements in foreign exchange rate in one of the Company's subsidiary operating in a hyperinflationary economy | - | - | - | - | (159) | (253) |
| Total | - | - | 54 | - | (105) | 2,974 |

(b) Standalone information:

| Particulars | Quarter ended | | | Half-year ended | | Year ended |
|--|--------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| | September 30, 2022 | June 30, 2022 | September 30, 2021 | September 30, 2022 | September 30, 2021 | |
| | Unaudited | Unaudited | Unaudited | Unaudited | Unaudited | Audited |
| Total Income | 13,755 | 13,043 | 10,321 | 26,798 | 18,604 | 41,085 |
| Net loss for the period (before tax and exceptional items) | 118 | (1,381) | (3,608) | (1,263) | (6,512) | (12,688) |
| Net loss for the period before tax (after exceptional items) | 118 | (1,381) | (4,142) | (1,263) | (7,050) | (10,978) |
| Net loss for the period after tax (after exceptional items) | 117 | (1,381) | (4,142) | (1,264) | (7,050) | (10,980) |

(c) The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly financial results are available on the websites of National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com), BSE Limited (www.bseindia.com) and the Company (www.zomato.com).

For and on behalf of the board of director of Zomato Limited (formerly known as Zomato Private Limited)

Sd/-
Deepinder Goyal
Managing Director and Chief Executive Officer
(DIN-02613583)

Date: November 10, 2022
Place: Gurugram



GUJARAT AMBUJA EXPORTS LIMITED

CIN : L15140GJ1991PLC016151

Regd. Office : "AMBUJA TOWER", Opp. Sindhu Bhavan, Sindhu Bhavan Road, Bodakdev, P.O. Thaltej, Ahmedabad - 380 059 (Gujarat) India
Ph.: +91 79-6155 6677 Fax :+91 79-6155 6678
Email Id : info@ambujagroup.com, Website : www.ambujagroup.com

EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & HALF YEAR ENDED 30th SEPTEMBER, 2022 (₹ in Crores)

| Sr. No. | Particulars | Quarter Ended | | | Half Year Ended | | Year Ended |
|---------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| | | 30.09.2022 Unaudited | 30.06.2022 Unaudited | 30.09.2021 Unaudited | 30.09.2022 Unaudited | 30.09.2021 Unaudited | 31.03.2022 Audited |
| 1. | Total income from operations | 1094.02 | 1288.80 | 1166.51 | 2382.82 | 2200.69 | 4724.37 |
| 2. | Net Profit / (Loss) from ordinary activities for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items) | 83.59 | 155.38 | 135.94 | 238.97 | 286.45 | 638.17 |
| 3. | Net Profit / (Loss) from ordinary activities for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) | 83.59 | 155.38 | 135.94 | 238.97 | 286.45 | 638.17 |
| 4. | Net Profit / (Loss) from ordinary activities for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) | 64.10 | 114.60 | 103.17 | 178.70 | 217.00 | 475.44 |
| 5. | Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] | 64.10 | 114.60 | 103.41 | 178.70 | 217.47 | 475.45 |
| 6. | Equity Share Capital (Face Value of ₹ 1/- each) | 22.93 | 22.93 | 22.93 | 22.93 | 22.93 | 22.93 |
| 7. | Earnings Per Share (Face Value of ₹ 1/- each) (not annualised) | | | | | | |
| | (i) Basic : | 2.80 | 5.00 | 4.50 | 7.79 | 9.46 | 20.73 |
| | (ii) Diluted : | 2.80 | 5.00 | 4.50 | 7.79 | 9.46 | 20.73 |

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & HALF YEAR ENDED 30th SEPTEMBER, 2022 (₹ in Crores)

| Sr. No. | Particulars | Quarter Ended | | | Half Year Ended | | Year Ended |
|---------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| | | 30.09.2022 Unaudited | 30.06.2022 Unaudited | 30.09.2021 Unaudited | 30.09.2022 Unaudited | 30.09.2021 Unaudited | 31.03.2022 Audited |
| 1. | Total income from operations | 1094.02 | 1288.80 | 1166.51 | 2382.82 | 2200.69 | 4724.35 |
| 2. | Net Profit / (Loss) from ordinary activities for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items) | 83.59 | 155.38 | 135.94 | 238.97 | 286.45 | 638.17 |
| 3. | Net Profit / (Loss) from ordinary activities for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) | 83.59 | 155.38 | 135.94 | 238.97 | 286.45 | 638.17 |
| 4. | Net Profit / (Loss) from ordinary activities for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) | 64.10 | 114.60 | 103.17 | 178.70 | 217.00 | 475.44 |
| 5. | Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] | 64.10 | 114.60 | 103.41 | 178.70 | 217.47 | 475.45 |
| 6. | Equity Share Capital (Face Value of ₹ 1/- each) | 22.93 | 22.93 | 22.93 | 22.93 | 22.93 | 22.93 |
| 7. | Earnings Per Share (Face Value of ₹ 1/- each) (not annualised) | | | | | | |
| | (i) Basic : | 2.80 | 5.00 | 4.50 | 7.79 | 9.46 | 20.73 |
| | (ii) Diluted : | 2.80 | 5.00 | 4.50 | 7.79 | 9.46 | 20.73 |

NOTES:

1. The above is an extract of the detailed format of Quarter / Half Yearly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly / Half Yearly Financial Results are available on the Company's website at www.ambujagroup.com and the Stock Exchanges websites at www.bseindia.com and www.nseindia.com.

For **GUJARAT AMBUJA EXPORTS LIMITED**

Manish Gupta

Chairman & Managing Director

(DIN : 00028196)

Place : Ahmedabad

Date : 11th November, 2022

Committed to Growth



Sun TV Network Limited

Regd. Office: Murasoli Maran Towers, 73, MRC Nagar Main Road, MRC Nagar, Chennai - 600 028

CIN: L22110TN1985PLC012491 Email: tvinfo@sunnetwork.in; www.suntv.in

Phone No. 044-44676767 Fax No. 044-40676161

Extract of consolidated financial results for the quarter ended and six months September 30, 2022

| Sl. No. | PARTICULARS | Quarter Ended | | | Six Months Ended | | Year Ended |
|---------|--|--------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| | | September 30, 2022 | June 30, 2022 | September 30, 2021 | September 30, 2022 | September 30, 2021 | |
| | | Unaudited | Unaudited | Unaudited | Unaudited | Unaudited | Audited |
| 1 | Income from Operations (net) | 825.65 | 1,219.14 | 848.67 | 2,044.79 | 1,667.54 | 3,584.82 |
| 2 | Net Profit before tax | 543.80 | 658.48 | 529.63 | 1,202.28 | 1,021.90 | 2,195.37 |
| 3 | Net Profit after tax | 407.44 | 493.99 | 395.55 | 901.43 | 760.58 | 1,641.91 |
| 4 | Total Comprehensive income | 407.84 | 494.38 | 395.38 | 902.22 | 760.24 | 1,643.47 |
| 5 | Equity share capital (Face value of Rs.5.00 /- each) | 197.04 | 197.04 | 197.04 | 197.04 | 197.04 | 197.04 |
| 6 | Reserves excluding revaluation reserves (i.e. Other Equity) | | | | | | 7,958.16 |
| 7 | Earnings Per Share (Face value of Rs.5.00 /- each) Basic and Diluted - in Rs. | 10.33 | 12.54 | 10.04 | 22.87 | 19.30 | 41.66 |
| | | Not annualised | | | | | |

Notes :

1. Additional information on standalone financial results for the quarter ended and six months September 30, 2022

| Sl. No. | PARTICULARS | Quarter Ended | | | Six Months Ended | | Year Ended |
|---------|--------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| | | September 30, 2022 | June 30, 2022 | September 30, 2021 | September 30, 2022 | September 30, 2021 | |
| | | Unaudited | Unaudited | Unaudited | Unaudited | Unaudited | Audited |
| 1 | Income from Operations (net) | 796.43 | 1,193.90 | 828.67 | 1,990.33 | 1,638.77 | 3,504.88 |
| 2 | Net Profit before tax | 534.09 | 655.40 | 527.58 | 1,189.49 | 1,044.53 | 2,193.14 |
| 3 | Net Profit after tax | 400.71 | 491.68 | 393.32 | 892.39 | 783.08 | 1,644.80 |
| 4 | Total Comprehensive income | 401.03 | 492.01 | 393.13 | 893.04 | 782.70 | 1,646.09 |

2. The above is an extract of the detailed format of quarterly and nine months ended financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the said financial results are available in the websites of the Company, National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited at www.suntv.in, www.nseindia.com and www.bseindia.com respectively.

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/
R. Mahesh Kumar
Managing Director

Place : Chennai

Date : November 11, 2022



NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

Head Office: Plot No. C-24, G Block, Bandra-Kurla Complex Bandra (E) Mumbai 400051. Website: www.nabard.org.



Unaudited Standalone Financial Results for the half year ended September 30, 2022

| For the year ended September 30, 2022 | | | | | | | (₹ Crore) |
|---------------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
| Sr. No. | Particulars | Quarter Ended | | | Half Year Ended | | Year Ended |
| | | 30.09.2022 | 30.06.2022 | 30.09.2021 | 30.09.2022 | 30.09.2021 | 31.03.2022 |
| | | [Unaudited] | [Unaudited] | [Unaudited] | [Unaudited] | [Unaudited] | [Audited] |
| 1 | Total Income from Operations | 9,636.43 | 8,861.08 | 9,225.43 | 18,497.51 | 18,396.63 | 36,761.29 |
| 2 | Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items) | 1,457.42 | 1,417.66 | 1,544.21 | 2,875.08 | 3,468.98 | 6,692.92 |
| 3 | Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items) | 1,457.42 | 1,417.66 | 1,544.21 | 2,875.08 | 3,468.98 | 6,692.92 |
| 4 | Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items) | 1,102.69 | 1,072.60 | 1,151.98 | 2,175.29 | 2,587.86 | 5,081.86 |
| 5 | Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 6 | Paid-up share capital | 17,080.00 | 17,080.00 | 15,580.00 | 17,080.00 | 15,580.00 | 17,080.00 |
| 7 | Reserves (excluding Revaluation Reserves) | | | | | | 43,116.93 |
| 8 | Securities Premium Account | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 9 | Net Worth | 62,013.26 | 60,545.95 | 56,092.34 | 62,013.26 | 56,092.34 | 59,473.35 |
| 10 | Paid up Debt Capital / Outstanding Debt* | 5,95,484.44 | 6,10,388.56 | 5,38,748.97 | 5,95,484.44 | 5,38,748.97 | 6,46,377.17 |
| 11 | Outstanding Redeemable Preference Share | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 12 | Debt-Equity Ratio | 9.48 | 9.96 | 9.50 | 9.48 | 9.50 | 10.74 |
| 13 | Earnings Per Share (EPS) | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 14 | Capital Redemption Reserve | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 15 | Debenture Redemption Reserve | NA | NA | NA | NA | NA | NA |

हिसार मेटल इंडस्ट्रीज लिमिटेड

CIN: L74899HR1990PLC030937

पंजीकृत कार्यालय: निवर इंडस्ट्रियल बेसलमेंट कॉलोनी, दिल्ली रोड, हिसार–125006 (हरियाणा)

ईमेल: info@hisarmetal.com; **वेबसाइट:** www.hisarmetal.com

फ़ोन: (01662) 220067, 220367, 220738 **फैक्स:** 91-1662-220265

30 सितम्बर, 2022 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए जनकेंद्रित वित्तीय परिणामों का उद्घरण

(₹. लाखों में निर्दिष्ट की छोटकरी)

| विवरण | समाप्त तिमाही 30.09.2022 (अनकेंद्रित) | समाप्त तिमाही 30.06.2022 (अनकेंद्रित) | समाप्त तिमाही 30.09.2021 (अनकेंद्रित) | समाप्त छमाही 30.09.2022 (अनकेंद्रित) | समाप्त छमाही 30.09.2021 (अनकेंद्रित) | समाप्त र्ष 31.03.2022 (अकेंद्रित) |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| प्रचालन से कुल आग (अन्य आग सहित) | 7573 | 8235 | 5652 | 15806 | 10340 | 23845 |
| अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, अपवादालयक और/व अपसाधारण मदों से पूर्व) | 475 | 527 | 376 | 1002 | 605 | 1622 |
| कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (अपवादालयक और/व अपसाधारण मदों के बाद) | 475 | 527 | 376 | 1002 | 605 | 1622 |
| कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (अपवादालयक और/व अपसाधारण मदों के बाद) | 356 | 394 | 281 | 750 | 453 | 1206 |
| अवधि के लिए कुल व्यापक आग [अवधि के लिए लाभ/(हानि) (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद) शामिल] | 356 | 394 | 281 | 750 | 453 | 1206 |
| इकित्ती शेरर पूंजी | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| रिजर्व (पुनर्मुल्यांकन रिजर्व को छोड़कर) जैसा कि अंकेंद्रित बैलेंस शीट में दिखाया गया है | | | | | | 3844 |
| प्रति शेरर आय (₹. 10/- प्रत्येक) (पात्र और बंद प्रचालनों के लिए) | | | | | | |
| ए) नैसर्गिक एवं दाय्यल्यूिड | 6.59 | 7.30 | 5.20 | 13.89 | 8.39 | 22.33 |

नोट:

करोड़ोक्त सेबी (लिस्टिड दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अनुसार, स्टॉक एक्सचेंज के साथ दर्ज की गई वैमासिक/अर्धवार्षिक वित्तीय परिणामों का विस्तृत प्रारूप का उद्घरण है। वैमासिक/अर्धवार्षिक वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट अर्थात् (www.bseindia.com व www.nseindia.com) और कंपनी की वेबसाइट (www.hisarmetal.com) पर उपलब्ध है।

ट्रुवे और निदेशक नंबर की ओर से

हस्ता/—

(अभिराम तावल)

अध्यक्ष अधिकारी

DIN 00681453

“प्रपत्र सं. आइएनसी–28” [कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार में] कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय एक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में स्थानांतरित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन केंद्रीय सरकार (क्षेत्रीय निदेशक) के साथ उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (क) के मामले में और

स. नाल्वाली केपीएल सहितसे प्राईवेट लिमिटेड

(CIN : U67120CH1994PTC014662)

जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : प्लॉट नं 45, फरद फ्लोर, इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस 1, चंडीगढ़-160001 में स्थित है

.....याचिकाकर्ता

सूचना आग जनता को यह सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केंद्रीय सरकार के प्रस्तावित स्थानांतरण से यह किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो यह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्रपत्र फाइल कर एसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक सप्ताह पर जिसमें उनके हित का प्रभाव और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति प्रारंभिक निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर बी-2 शिफ्ट, द्वितीय तल, पश्चिम गंगन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या सुपुर्द कर सकते हैं और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके उपरोक्त रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा।

बोर्ड की ओर से सन फुलवर केपीएल सहितसे प्राईवेट लिमिटेड हस्ता/— सुभाष कुमार निदेशक

स्थान : चंडीगढ़

तिथि : 12.11.2022

टीआईएन : 08306597

.....याचिकाकर्ता

“प्रपत्र सं. आइएनसी–28” [कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार में] कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय एक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में स्थानांतरित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन केंद्रीय सरकार (क्षेत्रीय निदेशक) के साथ उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (क) के मामले में और

सिवालीक केपीएल सहितसे प्राईवेट लिमिटेड

(CIN : U67120CH1994PTC014662)

जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : प्लॉट नं 45, फरद फ्लोर, इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस 1, चंडीगढ़-160001 में स्थित है

.....याचिकाकर्ता

सूचना आग जनता को यह सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केंद्रीय सरकार के प्रस्तावित स्थानांतरण से यह किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो यह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्रपत्र फाइल कर एसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक सप्ताह पर जिसमें उनके हित का प्रभाव और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति प्रारंभिक निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर बी-2 शिफ्ट, द्वितीय तल, पश्चिम गंगन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या सुपुर्द कर सकते हैं और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके उपरोक्त रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा।

बोर्ड की ओर से सन फुलवर केपीएल सहितसे प्राईवेट लिमिटेड हस्ता/— सुभाष सिंह निदेशक

स्थान : चंडीगढ़

तिथि : 12.11.2022

टीआईएन : 08167918

.....याचिकाकर्ता

“प्रपत्र सं. आइएनसी–28” [कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार में] कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय एक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में स्थानांतरित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन केंद्रीय सरकार (क्षेत्रीय निदेशक) के साथ उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (क) के मामले में और

सिवालीक केपीएल सहितसे प्राईवेट लिमिटेड

(CIN : U67120CH1994PTC014662)

जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : प्लॉट नं 45, फरद फ्लोर, इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस 1, चंडीगढ़-160001 में स्थित है

.....याचिकाकर्ता

सूचना आग जनता को यह सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केंद्रीय सरकार के प्रस्तावित स्थानांतरण से यह किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो यह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्रपत्र फाइल कर एसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक सप्ताह पर जिसमें उनके हित का प्रभाव और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति प्रारंभिक निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर बी-2 शिफ्ट, द्वितीय तल, पश्चिम गंगन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या सुपुर्द कर सकते हैं और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके उपरोक्त रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा।

बोर्ड की ओर से सियालीक केपीएल सहितसे प्राईवेट लिमिटेड हस्ता/—

पराज सिंह निदेशक

स्थान : चंडीगढ़

तिथि : 12.11.2022

टीआईएन : 08167918

.....याचिकाकर्ता

पश्चिम मध्य रेल सिमल एंव दूरधारा विभाग

निविदा सूचना - दिनांक 04.11.2022

भारत संघ के राष्ट्रपति के लिए एवं कंपनी और से करि.मं.सं. एवं दूर.इंजी. (सिमल एवं दूरधारा), पश्चिम मध्य रेल, कोटा मंडल, निम्नलिखित कार्य

Tender No. KOTA/SNT/SIG/2022/05, KOTA/SNT/SIG/2022/06 के लिए निविदाई


ई-निविदाई आमंत्रित करते है। टेण्डर खुलने की तारीख से समय 02.12.2022 को 15.00 बजे है। इस निविदा के लिये किसी भी तरह के मैनुअल प्रस्तावी की अनुमति नहीं है और किसी भी तरह के प्राप्त मैनुअल प्रस्ताव को नज्दकवाज कर दिया जायेगा। टेण्डर सीट कोट/एसएफटी/सिग./2022/05. कार्य का नाम: नागदा-मुधरा सेक्शन: टीटीआर नम्बर 191 (टीडब्ल्यूएस सीएफएससी - 108 सेट्स, टीडब्ल्यूएस-83 सेट्स एण्ड एस-47 सेट्स)। कार्य की अनुमानित लागत: ₹4,35,33,870.20. टेण्डर सीट कोट/एसएफटी/सिग./2022/06. कार्य का नाम: एस एण्ड टी वर्क इन कन्वेन्शन विथ कन्स्ट्रक्शन ऑफ आर ओ बी एट एलसी मेट्स इन कोटा-मुधरा सेक्शन ऑन कोटा सिविलिंग (नं. 13)। कार्य की अनुमानित लागत: ₹2,00,66,505.32.

उपरोक्त दोनों निविदाओं के लिए: टेण्डर जमा करने की आखिरी तारीख एवं समय: दिनांक 02.12.2022 को 15.00 बजे तक। पूर्ण विवरण वेबसाइट http://www.irps.gov.in पर उपलब्ध की गई है। निविदा/बोलीदाताओं के पास कक्षा III डिजिटल इस्तेमाल प्रमाणपत्र होना आवश्यक है और आईआरडीसीए फ्लैट पर रजिस्टर होना चाहिए। केवल पंजीकृत निविदा/बोलीदाताओं ई-टेण्डरिंग पर भाग ले सकते है। सभी आवश्यक दस्तावेज ई-निविदा में भाग लेने के समय में उपलब्ध किया जाना चाहिए। पंजीकृत निविदा एण्ड GSTIN रिजिस्टर होना चाहिए।

कोरोना को बनाना है दूरी की बेवसीन लगवाना है जरूरी।

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.



ऑरिक्स लीजिंग एंड फाइनांसियल सर्विसेस इंडिया लिमिटेड
(पूर्व में ओरिएस आंटी फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड विहित)
(ऑरिक्स आंटी इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्विसेस लिमिटेड की सहायक)

पंजी. कार्यालय: प्लॉट सं. 94, मरीस को-ऑपरेटिव इंडस्ट्रियल इस्टेट, अंधेरी-कुर्ला रोड, अंधेरी (ई), मुम्बई-400 059

टेली.: + 91-22-2859 5093/6707 0100 | फैक्स: +91 22 2852 8549

ईमेल: info@orixindia.com | www.orixindia.com | CIN: U74900MH2006PLC163937

कच्चा सूचना

(प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत ऑरिक्स लीजिंग एंड फाइनांसियल सर्विसेस इंडिया लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना जारी कर ऋणधारक श्रीमती नीतू जिन्दल (श्री अमिल कुमार जिन्दल के उपलब्ध कानूनी उतराधिकारी की हैसियत में) को उस सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 12,53,141.95 (रुपये बारह लाख तिड़पन हजार एक सौ इकत्तालिस एवं पैसे पंचानवे मात्र) 31.08.2022 तक देस के साथ आगे का ब्याज वापस लौटाना का निर्देश दिया था।

ऋणधारक, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 4 नवम्बर, 2022 की अपोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का सफेदिक कच्चा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारक को तथा आम जनता को एतद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 12,53,141.95 (रुपये बारह लाख तिड़पन हजार एक सौ इकत्तालिस एवं पैसे पंचानवे मात्र) के साथ उस पर ब्याज की राशि के लिए ऑरिक्स लीजिंग एंड फाइनांसियल सर्विसेस इंडिया लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की धर्मोपनि करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

भूमि एवं भवन, प्लॉट नं. बी-5/221 एवं 222, छत के अधिकार के साथ तीसरा तल, पॉकेट नं. 5, ब्लाक-बी, सेक्टर-5, रोहिणी, नई दिल्ली-110085 का सभी भाग तथा हिरसा तथा चौकड़ी : उत्तर : रोड, दक्षिण : अन्य की सम्पत्ति पूर्व : अन्य की सम्पत्ति पश्चिम : अन्य की सम्पत्ति

तिथि: 4 नवम्बर 2022

स्थान: दिल्ली

LAN : LN0000000013376

LN0000000017997

हस्ता/—
प्राधिकृत अधिकारी

ऑरिक्स लीजिंग एंड फाइनांसियल सर्विसेस इंडिया लिमिटेड



पंजाब एण्ड सिंध बैंक
(एक भारतीय बैंक)

Whichever service is the way of life

बी.ओ – इंटरनेशनल बैंकिंग खिडोयन, 6, सिंधिया हाउस, भूतल , कर्नाट सर्कस, नई दिल्ली-110001, फोन: 011-41411861, 41067829, ई-मेल: johd.delhi@psb.co.in

कच्चा पालास (अचल संपत्ति के लिए)

जबकि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) के प्रवर्तन के तहत अपोहस्ताक्षरी पंजाब एंड सिंध बैंक इंटरनेशनल बैंकिंग खिडोयन, 6, सिंधिया हाउस, भूतल, कर्नाट सर्कस, नई दिल्ली-110001 के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर दिनांक 17.08.2022 को मांग नोटिस जारी किया गया जिसमें मैसर्स डिजाइन एक्जिम (साइंद्यारी) (उत्तराकली), श्री परेश बेलवारिअर पुत्र श्री सी. बी. बेलवारिअर (पार्टनर मैसर्स डिजाइन एक्जिम) (गारंटर) और श्रीमती सुलभाजा बेलवारिअर पत्नी श्री परेश बेलवा. रिअर (पार्टनर मैसर्स डिजाइन एक्जिम) (गारंटर) को नोटिस में उल्लिखित राशि 16-08-2022 की स्थिति के अनुसार रु. **1,67,26,497.26 (रुपये एक करोड़ सत्तासी लाख छब्बीस हजार चार सौ सत्ताने और छब्बीस पैसे मात्र)** और उस पर अतिरिक्त ब्याज, व्यय और अन्य प्रभाव आदि को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए कहा है।

उत्तराकली / गारंटर के राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर, उत्तराकली / गारंटर और आम जनता को एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि अपोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 के उप धारा (4) के तहत उसे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर **07 नवम्बर 2022** को कच्चा कर लिया है।

विशेष रूप से उत्तराकली / गारंटर और आम जनता को एतद्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन करने पर **पंजाब एंड सिंध बैंक**, इंटरनेशनल बैंकिंग खिडोयन, 6, सिंधिया हाउस, भूतल, कर्नाट सर्कस, नई दिल्ली-110001 को 16-08-2022 की स्थिति के अनुसार रु.**1,67,26,497.26 (रुपये एक करोड़ सत्तासी लाख छब्बीस हजार चार सौ सत्ताने और छब्बीस पैसे मात्र)** और उस पर व्यय आदि के प्रभाव के अधीन होगा। प्रतिभूति परिसंपत्तियों की धुनाओं के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के तहत उत्तराकली का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

संपत्ति का स्वामित्व: श्री परेश बेलवारिअर पुत्र श्री सी. बी. बेलवारिअर और श्रीमती सुलभाजा बेलवारिअर पत्नी श्री परेश बेलवारिअर।

बी-139, ब्लॉक-बी सेक्टर-52, नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201307 में बेसमेंट के साथ-पूरें ढाई मंजिला आवासीय भवन का वह समस्त हिस्सा और अंश (162 वर्ग मीटर क्षेत्रफल) तथा निम्नानुसार सोमांबद : उत्तर- प्लॉट नं. बी-140 सेक्टर-52, नोएडा


परिचय: अन्य की संपत्ति / बी-163 और 164 सेक्टर 52 नोएडा

पूरी प्रवेश/9 मीटर चौड़ाई

दक्षिण: प्लॉट नं. बी-138, सेक्टर-52, नोएडा

दिनांक: 07.11.2022 स्थान : दिल्ली

अधिकृत अधिकारी पंजाब एंड सिंध बैंक



ऋण वसूली न्यायाधिकरण, देहरादून
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (वित्तीय सेवा विभाग)

दूसरी मंजिल, पारस टॉवर, माजरा, सहारनपुर रोड, देहरादून, उत्तराखंड

—248171 वसूली अधिकारी-11, डीआरटी, विराटून के समक्ष

मांग और उपस्थिति की सूचना
(ऋण वसूली एवं दिवालियापन अधिनियम, 1993की धारा 25 से 29 और आवक अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची के नियम-2 के तहत नोटिस)

ए सं संख्या 231/2019 में आर सी 30/2020

युनियन बैंक ऑफ इंडिया

साहजहापुर शाखा, जिला सहारनपुर, उ.प्र

बनाम

बीआई संख्या: 248 दिनांक: 28.10.2022

नुराज अली और अन्य

1- मुराद अली पुत्र श्री असगर, निवासी ग्राम- समसपुरकला, तहसील-नाकुंड , जिला-सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

प्रमाणपत्र देनदार

(i) यह सूचित किया जाता है कि माननीय पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली न्यायाधिकरण देहरादून द्वारा ओ/ए. 231/2019 में जारी वसूली प्रमाण पत्र के अनुसार रु. 10,64,931.00 (दस लाख चौसठ हजार नौ सौ इकत्तीस रुपये मात्र) की राशि के साथ पेंडेन्टलाइट और ओ.ए. दाखिल करने की तारीख 20.05.2019 से शेष राशि को कम करने पर मविध के ब्याज / 12.00% प्रति वर्ष साधारण दर और लागत रु 61,000.00 आपके खिलाफ देय हो गई है।

(ii) आपको मांग नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर उपरोक्त राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है, ऐसा न करने पर उक्त ऋण की वसूली एवं दिवा, लियापन अधिनियम, 1993 और उसके तहत नियमों के अनुसार की जाएगी।

(iii) पूर्णतः राशि के अलावा, आप निम्नलिखित का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगे:

(क) निगमन कार्यवाही के इस नोटिस के तुरंत बाद शुरू होने वाली अवधि के लिए ऐसे देय ब्याज है।

(ख) इस नोटिस और अन्य प्रक्रियाओं और देय राशि की वसूली के लिए की गई अन्य सभी कार्यवाही की सेवा के संबंध में किए गए सभी लागत, शुल्क एवं व्यय।

(iv) यदि आपके द्वारा उपरोक्त राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो आपको एतद्वारा आवे की कार्यवाही के लिए 29.11.2022 को पूर्वाह्न 11.00 बजे अपोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया है।

मेरे हाथ और न्यायाधिकरण की मुहर के तहत, इस तिथि 28 अक्टूबर, 2022 को दिया गया आदेश।

वसूली अधिकारी-II
डीआरटी देहरादून

फॉर्म नं. 5

माननीय ऋण वसूली न्यायाधिकरण के समक्ष

600/1, युनिवर्सिटी रोड, हनुमान सेतु मंदिर, लखनऊ

प्रकाशन द्वारा उत्तर दाखिल करने और उपस्थिति के लिए समन

दिनांक: 31.10.2022

युनियन बैंक ऑफ इंडिया

मैसर्स दुर्गा जी ट्रेडर्स एंड अन्य

बनाम

आवेदक

बनाम पक्ष

ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1993 के नियम 12 और 13 के साथ पठित बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋण की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 19 (3) के तहत प्रतिवादियों को समन।

मूल आवेदन संख्या- 2022 का 699

1. मैसर्स दुर्गा जी ट्रेडर्स,

इसके मालिक श्री संजीव कुमार गुप्ता पुत्र राम साहा ए गुप्ता के माध्यम से पता: मंडी घनश्याम गंग भगवान महावीर रोड, बड़ीहट्ट-250611 (उत्तराकली)

2. श्री संजीव कुमार गुप्ता पुत्र राम साहाय गुप्ता

निवासी : आवास नं. 22/246 पुराना नं. 22/212 मंडी अमन गंज नई मंडी, रेलवे रोड,सेंद्रल

बैंक ऑफ इंडिया के पास बड़ीहट्ट-250611 (उत्तराकली)


3. श्रीमती ममता गुप्ता पत्नी श्री संजीव कुमार गुप्ता

निवासी : हाउस नंबर 22/246 पुराना नं. 22/212, मंडी अमन गंज नई मंडी, रेलवे रोड, सेंद्रल बैंक ऑफ इंडिया के पास बड़ीहट्ट -250611 (गारंटर)

उपरोक्त उल्लिखित मूल आवेदन में आपको व्यक्तिगत रूप से या इस ट्रिब्यूनल में अपने विधिवत अधिकृत एजेंट या कानूनी पेशेवर के माध्यम से सम्मन के प्रकाशन के बाद आवे दक या उसके वकील/विधिवत अधिकृत एजेंट को इसकी प्रति प्रस्तुत करने के बाद दस्तावेजों और हलफनामों (यदि कोई हो) के साथ दो सेटों में पेपर बुक फॉर्म में जवाब दाखिल करने की आवश्यकता है, और उसके बाद आपको 12.01.2023 को पूर्वाह्न 10.30 बजे ट्रिब्यूनल के समक्ष उपस्थित होना होगा। ऐसा न करने पर आवेदन पर सुनवाई की जाएगी और आपको अनुपस्थिति में निर्णय लिया जाएगा।

रजिस्ट्रार

ऋण वसूली न्यायाधिकरण, लखनऊ



पंजाब नेशनल बैंक
(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

सकल सचन केंद्र, पूर्वी दिल्ली, पॉकेट-ई, मयूर विहार, फेज-1, दिल्ली-110091

ईमेल: es8075@pnb.co.in, दूरधारा सं. (वर्गालय) 011-22779758, 22785289

ऋणकर्ता की स्थिति में अचल संपत्ति हेतु अधिश्रण सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

जबकि, अपोहस्ताक्षरतां ने पंजाब नेशनल बैंक, सकल सचन केंद्र, पूर्वी दिल्ली (पूर्व में परिसंपत्ति वसूली प्रबंधन शाखा के रूप में विहित), सीएससी, प्रथम तल, पॉकेट-ई, मयूर विहार, फेज-1, दिल्ली-110091 के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगागत, एक मांग सूचना दिनांकित 24.06.2022 निर्गत की थी, जिसमें मैसर्स मनीष इंडोमिनियर्स (स्वामी) श्री मनीष कुमार पुत्र श्री राजेंद्र सिंह तथा गारंटर 1. श्रीमती सरोजा पत्नी श्री मनीष कुमार, निवासी :